

CLASS 4
SUBJECT- 2ND LANGUAGE HINDI
CHAPTER- 3
गुब्बारे में चीता

WORKSHEET

सार :

- बलदेव के स्कूल के पास सरकस लगी थी | विज्ञापन देखकर उसका मन ललचा उठा |
- हैडमास्टर साहब के मना करने के बाद भी शनिवार को उसने टिकट खरीदा और सरकस देखने जा पहुंचा |
- वहां के सभी जानवरों को बहुत दुबला पतला देखकर उसे बहुत निराशा हुई | उसने सोचा कि इससे अच्छा तो वह गेंद खेलने ही चला गया होता |
- उसी समय उसने देखा कि एक आदमी चिल्ला- चिल्ला कर सबको गुब्बारे से आसमान की सैर करवाने के लिए बुला रहा है |
- इसी समय चीता गुब्बारे वाले की ओर दौड़ा | जान बचाने के लिए गुब्बारे वाला गुब्बारे छोड़कर भागा |
- बलदेव भी जान बचाने के लिए गुब्बारे में ही कूद गया | अब चीता भी बलदेव को पकड़ने के लिए गुब्बारे में कूदा |
- गुब्बारा बलदेव और चीता दोनों को लेकर काफी ऊपर आसमान की तरफ उड़ चला |
- अब दोनों को अपनी-अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ी थी | चीता तो अपना सारा चीतापन ही भूल गया |
- चीता अपनी जान बचाने के लिए गुब्बारे से नीचे कूद पड़ा |
- बलदेव को अचानक याद आया कि उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने पर सारी गैस निकल जाती है; तब गुब्बारा नीचे आ जाता है |
- उसने भी गुब्बारे का मुंह पूरी तरह खोल दिया | अब गुब्बारा बड़े वेग से नीचे गिरने लगा |
- गुब्बारा थोड़ा नीचे आने पर एक दरिया के ऊपर से बहने लगा | अब बलदेव ने दरिया में कूद कर अपनी जान बचाई |
- इस तरह इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें अपने बड़ों की बात जरूर माननी चाहिए और कोई भी काम खूब सोच समझ कर करना चाहिए |

QUESTIONS :

Q 1) निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए :

- a) तमाशा
- b) हुक्म
- c) दरिया
- d) आकर्षक
- e) बेतहाशा

Q 2) निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए :

- a) विज्ञापन
- b) नाहक
- c) वेग
- d) हुक्म
- e) तमाशा

Q 3) एक शब्द में उत्तर दीजिए :

- a) स्कूल के पास के मैदान में क्या लगा हुआ था ?
- b) सरकस का इशतिहार कैसा था ?
- c) गुब्बारे वाले के पीछे कौन दौड़ा ?
- d) बलदेव अपनी जान बचाने के लिए कहां चढ़ गया ?
- e) बलदेव गुब्बारे से कहां कूदा ?

Questions on page 24 :

Q 2) सोचे और बोलें :

- (i), (ii), (iii)

Q 3) लघु उत्तर लिखें :

- (i), (ii), (iii), (iv).
-